



વेरાવલ, ગુજરાત કે તટીય સમુદ્ર કે વિલીન પોષક તત્ત્વ ઔર પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા

એચ.એમ.ભિન્ન ઔર પી.કલાધરન

કેન્દ્રીય સમુદ્રી માત્રિકા અનુસંધાન સંસ્થાન કા વેરાવલ ક્ષેત્રીય કેંદ્ર, વેરાવલ, ગુજરાત

કેન્દ્રીય સમુદ્રી માત્રિકા અનુસંધાન સંસ્થાન, કોવી, કેરલ

લેખક સે સંપર્ક: kaladharanedp@gmail.com

પ્રસ્તાવના

તટીય સમુદ્ર કે પોષક તત્ત્વ ઔર પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા મુખ્યત: તટીય પ્રક્રિયાઓં ઔર તટ કે નિકટ કી જાને વાલી માનવીય હસ્તક્ષેપોં સે પ્રભાવિત હોતે હોયાં। વેરાવલ કે તટીય સ્થાન રાસાયનિક પદાર્થ, ધાગા એવં સિમેન્ટ કા નિર્માણ કરને વાલે કર્ફ પ્રકાર કે ઉદ્યોગોં સે રૂકાવટ કી સ્થિતિ પર હોયાં। ઇન ઉદ્યોગોં મેં ઇંડિયન રયોન્સ એન યૂ વી ઓ લિમિટડ, ગુજરાત અમ્બુજા સિમેન્ટ લિમિટડ, ગુજરાત સિંહી સિમેન્ટ લિમિટડ ઔર ગુજરાત હેવી કેમિકલ્સ લિમિટડ પ્રમુખ હોયાં। વેરાવલ તટ પર માત્રિકા ઔર નાવ નિર્માણ કે પ્રમુખ ઉદ્યોગ ભી હોયાં। વેરાવલ મેં બડી સંખ્યા મેં મછલી સંસાધન ફેક્ટરીયાં હોયાં જહાં સે અચ્છી ગુણતા વાલે સમુદ્રી ખાદ્ય યૂ એસ એ, જાપાન, દક્ષિણ પૂર્વ એશિયા, ગલ્ફ એવં યૂરોપિયન યૂનિયન કે દેશોં મેં નિર્યાત કિએ જાતે હોયાં।

પાઠીલ આદિ (1964), રાવુ ઔર જયરામન (1970) ઔર સદાનન્દ રાવુ આદિ (1979) કી રિપોર્ટોં કે અલાવા વેરાવલ કે તટીય સમુદ્ર પર તુલનાત્મક રૂપ સે પૂરી તરફ પતા નહીં લગાયા ગયા હૈ। વેરાવલ તટ કી પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા ઔર વિલીન પોષક તત્ત્વોં કે ચાર સ્થાનોં કી જલરાશિકી (Hydrographic) વિશેષતાઓં પર વર્ષ 2013 કે 12 મહીનોં કે દોરાન કિએ ગાએ વિશ્લેષણ કે પરિણામ ઔર પ્રમુખ આકલન યહોઁ પ્રસ્તુત કિએ જાતે હોયાં।

સામગ્રીયાં ઔર તરીકે

ગુજરાત તટ કે વેરાવલ કે તટીય સમુદ્ર કે ચાર સ્થાનોં કે સમુદ્રી સતહ સે પાની કા નમૂના સંગ્રહિત કિયા ગયા। ઇન ચાર સ્થાનોં મેં પહુલા સ્થાન ઇંડિયન રયોન્સ ફેક્ટરી કે બહિસ્થાવ કા સ્થાન રયોન્સ ઔર ઇસ સ્થાન કી ગહરાઈ તીન મીટર હૈ। દૂસરા સ્થાન બારમાઉથ હૈ જહાં

इंडियन रयोन्स फैक्टरी का अपशिष्ट छोड़ दिया जाता है, और इस स्थान की गहराई 4.5 मीटर है। तीसरा स्थान पोरबंदर है, जहाँ की गहराई 3.0 मीटर है और इस स्थान के तटीय भाग में बिल्ड सिपेन्ट और सौराष्ट्रा केमिकल्स लिमिटेड कंपनियाँ स्थित हैं। चौथा स्थान माधवपुर है और यह अन्य स्थानों की तुलना में स्वच्छ और प्रमुख फैक्टरियों और अन्य उद्योगों से मुक्त है। इन स्थानों के प्राथमिक उत्पादकता, पौष्टिक तत्व और आधारभूत जलराशिकी प्राचलों पर सूचना मिलने के लिए पानी का नमूना संग्रहित करके मानक तरीके (पार्सन्स आदि 1984) से संसाधन और विश्लेषण किया गया।

परिणाम और चर्चा

इन चार स्थानों से संग्रहित पानी के नमूनों से माहिक रूप से प्राथमिक जलराशिकी प्राचलों जैसे एस एस टी, pH, लवणता, विलीन ऑक्सिजन और विलीन पौष्टिक तत्वों और प्राथमिक उत्पादकता का निर्धारण किया गया और न्यूनतम एवं अधिकतम मूल्य सारणी 1 में दिया जाता है। रयोन्स स्टेशन में समुद्री सतह का तापमान (एस एस टी) 25.9°C देखा गया, जो माधवपुर से कम था। वेरावल मुहाने में 27°C का उच्चतम तापमान आकलित किया गया (सारणी 1)। समुद्र जल में pH की मात्रा बारमाउथ स्थान में 7.7 और पोरबंदर में 8.8 अधिकतम आकलित किया गया और pH का वार्षिक माध्य मूल्य माधवपुर में निम्नतम (8.02) और पोरबंदर में अधिकतम (8.2) देखा गया (सारणी 1)।

लवणता का माध्य मूल्य सभी चार स्थानों में 35 पी पी टी से ऊपर देखा गया और पोरबंदर में 35.758 पी पी टी का अधिकतम मूल्य और बारमाउथ में जुलाई महीने में 28.7 पी पी टी और सितंबर महीने में 37.8 पी पी टी आकलित किया गया। विलीन ऑक्सिजन बारमाउथ में न्यूनतम 3.294 मि.लि./लि. और माधवपुर में अधिकतम 5.145 मि.लि./लि. देखा गया। पूरी अध्ययन अवधि के दौरान समुद्र जल में विलीन ऑक्सिजन का परास बारमाउथ में 1.92 मि.लि./लि. से रयोन्स स्थान में 5.76 मि.लि./लि. देखा गया। कुल निलंबित ठोस पदार्थ (टी एस एस) का स्तर माधवपुर में न्यूनतम माध्य मूल्य (39.45 मि.ग्रा./लि.) और पोरबंदर में अधिकतम (46.67 मि.ग्रा./लि.)

देखा गया और पूरे अध्ययन अवधि के दौरान इस का परास माधवपुर में 32.4 मि.ग्रा./लि. से रयोन्स स्टेशन में 61.5 मि.ग्रा. तक था।

विलीन फोर्सफेट के स्तर का उच्चतम माध्य ($0.247\text{ }\mu\text{g at/l}$) रयोन्स क्षेत्र में और निम्नतम माध्य $0.14\text{ }\mu\text{g at/l}$ पोरबंदर के समुद्री क्षेत्र में आकलित किया गया और इस का परास पोरबंदर में $0.036\text{ }\mu\text{g at/l}$ न्यूनतम और माधवपुर में $1.1221\text{ }\mu\text{g at/l}$ था। विलीन नाइट्रेट का परास पूरे अध्ययन अवधि के दौरान बारमाउथ में $0.282\text{ }\mu\text{g at/l}$ और पोरबंदर में $8.464\text{ }\mu\text{g at/l}$ देखा गया और इस का वार्षिक माध्य माधवपुर में $5.157\text{ }\mu\text{g at/l}$ अधिकतम और वेरावल बारमाउथ स्टेशन में $3.654\text{ }\mu\text{g at/l}$ न्यूनतम आकलित किया गया। विलीन अमोर्फिया का माध्य स्तर माधवपुर में न्यूनतम $0.458\text{ }(\mu\text{g at/l})$ और बारमाउथ में $2.828\text{ }\mu\text{g at/l}$ देखा गया और समग्र वितरण अध्ययन अवधि के दौरान माधवपुर में $0.113\text{ }(\mu\text{g at/l})$ न्यूनतम से बारमाउथ क्षेत्र में $6.758\text{ }\mu\text{g at/l}$ अधिकतम देखा गया।

प्राथमिक उत्पादकता रयोन्स और बारमाउथ स्टेशनों में जी पी पी और एन पी पी के शून्य मूल्य का समग्र न्यूनतम और माधवपुर स्टेशन में अधिकतम (जी पी पी 2.4 और एन पी पी 1.72 mgC/l /दिन) आकलित किया गया (सारणी 1)।

वेरावल के तटीय समुद्र की जलराशिकी पर इस से पहले किए गए अध्ययनों का अवलोकन करने पर यह संकेत मिलता है कि एस एस टी और लवणता पर हमें प्राप्त परिणाम स्वीकार्य है और केवल उपरितल के लिए यह सीमित है। माधवपुर में, लवणता के निम्न स्तर और विलीन ऑक्सिजन तथा एस एस टी एवं अमोर्फिया के उच्चतम स्तर, विलीन ऑक्सिजन का उच्चतम स्तर, टी एस एस एवं अमोर्फिया के निम्नतम स्तर और नाइट्रेट, पी ओ 4 और प्राथमिक उत्पादकता पर आकलन करने पर यह संकेत मिलता है कि तटीय स्थानों से मानवीय गतिविधियों से अपशिष्ट और प्रदूषणकारी पदार्थ बारमाउथ द्वारा वेरावल के समुद्र में प्रवेश किए जाते हैं बल्कि माधवपुर तट में ये प्रदूषणकारी पदार्थ वहाँ ही संचित होते हैं याने कि माधवपुर तट प्रदूषण और मानवीय हस्तक्षेपों से मुक्त है। हमारा अध्ययन एक वर्ष

की अवधि के दौरान लंबित था और समुद्री सतह पर सीमित था फिर भी वर्तमान अध्ययन पिछले अध्ययनों की पुष्टि करने लायक और भविष्य के लिए डाटाबेस के रूप में उपयोगी बन जाएगा।

सारणी 1: गुजरात तट के चार स्थानों में वर्ष 2013 के दौरान आकलित जलराशिकी प्राचलों के न्यूनतम और अधिकतम मूल्य

स्टेशन	रयोन्स		बारमाउथ		पोरबंदर		माधवपुर	
	प्राचल	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम
एस एस ठी ($^{\circ}\text{C}$)	21.1	28	20.5	30.5	21.2	29.1	19.1	28.2
pH	8.04	8.35	7.7	8.55	7.81	8.8	7.28	8.66
लवणता (ppt)	29.6	36.2	28.7	37.8	34.3	37.4	33.1	36.9
वि. आ०. (ml/l)	3.74	5.76	1.92	4.63	4.46	5.42	4.73	5.48
जी पी पी (mgC/l/दिन)	0.0	0.8	0.0	0.9	0.1	0.7	0.24	2.4
एन पी पी (mgC/l/दिन)	0.0	0.6	0.0	0.8	0.0	0.4	0.17	1.72
ठी एस एस (mg/l)	33.8	61.5	37.1	61.1	37.3	53.2	32.4	44.9
NH ₃ ($\mu\text{g at/l}$)	0.15	1.778	0.24	6.758	0.029	1.864	0.113	1.581
PO ₄ ($\mu\text{g at/l}$)	0.059	1.131	0.073	1.344	0.036	0.136	0.065	1.221
NO ₃ ($\mu\text{g at/l}$)	0.411	7.471	0.282	6.842	0.523	8.467	0.635	8.141

गुरु अमृत राज